



मनोहर बलवानी  
कम्पनी सचिव  
MANOHAR BALWANI  
Company Secretary

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड  
POWER FINANCE CORPORATION LTD.  
(भारत सरकार का उपक्रम) (A Govt. of India Undertaking)

सं.: 1:05:138:II:सीएस

दिनांक: 05.02.2020

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड  
लिस्टिंग विभाग, एक्सचेंज प्लाजा,  
बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पू), मुंबई-400 051

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड,  
कॉर्पोरेट सेवाएं विभाग, तल-25,  
पी. जे. टावर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई-400 001

**विषय: वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए अंतरिम लाभांश, यदि कोई हो, की घोषणा के विचारार्थ निदेशक मंडल की बैठक संबंधी सूचना**

महोदय/महोदया,

हमारे दिनांक 31.01.2020 के पत्र के अनुक्रम में, जिसमें सूचित किया गया है कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक मंडल द्वारा 12 फरवरी, 2020 को आयोजित होने वाली अपनी बैठक में अन्य बातों के साथ साथ 31 दिसंबर, 2019 को समाप्त तिमाही और छमाही के लिए अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों (एकल एवं समेकित) पर विचार किया जाएगा, यह सूचित किया जाता है कि उक्त बैठक में, निदेशक मंडल द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए अन्तरिम लाभांश, यदि कोई हो, की घोषणा से संबंधित प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा।

इस संदर्भ में, जैसा पहले सूचित किया गया है, इनसाइडरों द्वारा ट्रेडिंग के विनियमन और रिपोर्टिंग हेतु पीएफसी की आचार संहिता तथा उचित प्रकटीकरण, 2015 (संहिता), के अनुसार कंपनी की प्रतिभूतियों में संव्यवहार (डील) करने के लिए ट्रेडिंग विंडो 01 जनवरी 2020 को बंद रहेगी और 31 दिसंबर, 2019 को समाप्त तिमाही के लिए वित्तीय परिणामों की घोषणा के पश्चात अड़तालीस (48) घंटे की समाप्ति तक बंद रहेगी।

'संहिता' में यथा परिभाषित सभी पदनामित कार्मिकों (इसमें पीएफसी की सहायक कंपनी के कार्मिक शामिल हैं) और अन्य संबद्ध व्यक्तियों को सलाह दी गई है कि पूर्वोक्त अवधि के दौरान इक्विटी शेयरों और सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों सहित कंपनी की प्रतिभूतियों में कोई व्यापार न करें।

आपकी जानकारी एवं रिकॉर्ड हेतु प्रस्तुत

धन्यवाद।

भवदीय,  
कृते पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(मनोहर बलवानी)  
मुख्य महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव  
[mb@pfcindia.com](mailto:mb@pfcindia.com)